

वर्ष 2015 - 16

हेतु

वार्षिक लेखा



राजीव गांधी विश्वविद्यालय

रोनो हिल्स, दोईमुख - 791112

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

31. मार्च 2016 तक का तुलन पत्र

निधियों का स्रोत	एससीएच	चालू वर्ष राशि(रु)	विगत वर्ष राशि(रु)
समग्र/पूँजीगत निधि	1	1,307,570,902.12	1,273,023,194.23
अभिहित/संरक्षित/अधिशेष निधि	2	391,469,641.45	375,940,757.45
मौजूदा देनदारिया एवं प्रावधान	3	548,073,899.00	228,460,907.00
कुल		2,247,114,442.57	1,877,424,858.68

निधि का उपयोग	एससीएच	चालू वर्ष राशि (रु)	विगत वर्ष राशि(रु)
<u>स्थाई परिसंपत्तियाँ</u>	4		-
मूर्त परिसंपत्तियाँ		773,267,052.65	716,247,978.66
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		565,388,290.00	362,175,931.00
चालू पूँजीगत कार्य			
<u>उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश</u>	5	-	-
दीर्घ कालिक			
अल्प कालिक			
<u>निवेश (अन्य)</u>	6	-	-
<u>चालू परिसम्पत्तियाँ</u>	7	817,720,114.92	720,525,340.92
<u>ऋण,अग्रिम एवं जमा</u>	8	90,738,985.00	78,475,608.10
कुल		2,247,114,442.57	1,877,424,858.68


Assistant Registrar(Fin.)
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा

	एससीएच	चालू वर्ष	विगत वर्ष
		राशि(रु)	राशि(रु)
आय			
शैक्षणिक पावती	9	61,826,673.00	69,477,696.00
अनुदान/सहायिकी	10	435,760,867.00	265,169,000.00
निवेश से आय	11	43,117,961.00	26,225,453.00
प्राप्त व्याज	12	12,273,906.00	-
अन्य आय	13	78,648,688.00	42,781,206.00
पूर्व अवधिक आय	14	-	-
कुल (क)		631,628,095.00	403,653,355.00
व्यय			
कर्मचारी भुगतान एवं लाभ (स्थापना खर्च)	15	724,639,531.00	272,659,086.04
शैक्षणिक खर्च	16	32,248,007.00	19,349,346.00
प्रशासनिक एवं साधारण कर्च	17	13,686,282.00	20,266,426.00
यातायत कर्च	18	8,334,068.00	7,912,727.00
मरम्मत एवं रखरखाव	19	32,225,669.00	34,165,933.00
वित्तिय लागत	20	93,830.00	58,310.00
लाभांश	4	40,140,179.00	60,263,393.50
अन्य खर्च	21	35,360,152.10	13,934,300.00
पूर्व अवधिक खर्च	22	-	-
कुल (ख)		886,727,718.10	428,609,521.54
बाकाया आय से अधिक (क-ख)		(255,099,623.10)	(24,956,166.54)
अभिहित निधि को/से अंतरण		-	26,225,453.00
भवन निधि			
अन्य (विशेषतः)			
पूजीगत निधि में अधिशेष/(घाटा)बाकाया जुड़ा		(255,099,623.10)	(51,181,619.54)


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

<u>अनसूची - 1 - समग्र/पंजीगत निधि</u>	राशि (रु)	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष आरम्भ में बकाया	1,273,023,194.22	1,068,458,161.77
जुड़ा:- समग्र/पंजीगत अंशदान	289,647,331.00	255,746,652.00
जुड़ा:- पंजीगत खर्च के लिए प्रयोक्त यू.जी.सी, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-
जुड़ा:- प्रायोजित परियोजना से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ जौन पर अधिपत्य संस्थान का हो	-	-
जुड़ा:- दान/उपहार से प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
जुड़ा:- अन्य अतिरिक्त	-	-
जुड़ा:- आय एवं व्यय लेखा से व्यय से अतिरिक्त आय से प्राप्त	(255,099,623.10)	-
कुल	1,307,570,902.12	1,324,204,813.77
(कटौती) आय एवं व्यय लेखा से घटा		(51,181,619.54)
कुल (ख)	1,307,570,902.12	1,273,023,194.23


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची-2 अभिहित/अधिशेष निधि	निधि वार व्योरा							राशि (रु)
	अद्येता वृत्ति/छात्र वृत्ति	शेष परियोजना	X वी योजना	XI वी योजना	XIवी योजना	अन्य	चालू वर्ष	
क) निधि का आरंभिक बाकाया	5,987,544.00	143,814,368.20	6,340,247.15	(167,336,436.00)	313,148,587.00	73,986,447.10	375,940,757.45	544,196,397.45
ख) निधि में जोड़ा गया	1,607,000.00	53,613,484.00			330,000,000.00	17,400,000.00	402,620,484.00	102,699,159.00
ग) निधि के निवेश से आय					9,101,031.00	-	9,101,031.00	26,225,453.00
घ) निवेश/अशीम से उर्पाजित आय							-	-
ङ) बचत बैंक खाता से आय							-	-
च) अन्य जुड़ा (विशिष्ट प्रकृति)							-	-
कुल (क)	7,594,544.00	197,427,852.20	6,340,247.15	(167,336,436.00)	652,249,618.00	91,386,447.10	787,662,272.45	673,121,009.45
सौ) निधि का वस्तुनिष्ठ उपयोग/व्यय					251,323,078.00	38,324,253.00	289,647,331.00	255,746,652.00
क) पूजीगत व्यय	4,686,834.00	63,300,151.00	-	-	37,789,648.00	768,667.00	106,545,300.00	114,915,600.00
ख) राजस्व व्यय							-	-
अन्य					289,112,726.00	39,092,920.00	396,192,631.00	370,662,252.00
कुल (ख)	4,686,834.00	63,300,151.00	-	-			396,192,631.00	370,662,252.00
वर्षान्त शेष (क - ख)	2,907,710.00	134,127,701.20	6,340,247.15	(167,336,436.00)	363,136,892.00	52,293,527.10	391,469,641.45	302,458,757.45
द्वारा प्रस्तुत नकद एवं बैंक बकाया निवेश								
उपार्जित आय और बाकी								

Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112

Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची- 3 मौजूदा देनदारिया एवं प्रावधान		चालू वर्ष	राशि (रु) विगत वर्ष
क. मौजूदा देनदारिया			
1. कमियों से जमा			
2. छात्रों से जमा			
3. विविध ऋण डाटा			
क) समान एवं सेवाओं के लिए			
ख) अन्य			
4. अन्य जमा (ईएमडी सुरक्षा जमा सहित)			
5. संविधिक देनदारिया(जीपीएफ, टीडीएस, डब्लू.सी.टेक्स, सीपीएफ, जीआई एस, एन.पी.एस)-			
क) अतिदेय			
ख) अन्य			
6. अन्य चालू देनदारियाँ			
क) वेतन			
ख) प्रायोजित परियोजनाओं से पावती			
ग) प्रायोजित अध्येता वृत्ति एवं छात्रवृत्ति से पावती			
घ) अनुपयुक्त अनुदान	308,031,299.00		
ड) अग्रिम अनुदान			
च) अन्य निधि			
छ) अन्य देनदारियाँ	54,837,502.00		55,261,429.00
कुल (क)	362,868,801.00		55,261,429.00
ख. प्रावधान			
1. टेक्स के लिए	-		-
2. उपदान	109,545,593.00		103,543,784.00
3. अधिर्वाषता/सेवानिवृत्ति	502,953.00		507,828.00
4. जमा छुट्टी नकदीकरण	75,156,552.00		69,147,866.00
5. खर्च देय	-		-
6. व्यापार वारांटी/दावा	-		-
7. अन्य (विशिष्ट)	-		-
कुल (ख)	185,205,098.00		173,199,478.00
कुल (क+ख)	548,073,899.00		228,460,907.00


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची - 4

अनुसूची - 4											राशि (रु)	
शीर्ष परिसंपत्तियाँ	सकल खंड						मूल्यहासि		कुल खंड		विगत वर्षात की स्थिति	
	वर्षाभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षात में लागत/मूल्यकन	वर्ष के आरम्भ में स्थिति	वर्ष के दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान दौराण कटौती	वर्षात में कुल	चालू वर्षात स्थिति			
1. भूमि	73,970,716.00	16,653,955.00	-	90,624,671.00	182,477,553.62	12,693,293.00	-	-	90,624,671.00	73,970,716.00		
2. विकास स्थल												
3. भवन	618,399,702.00	16,264,925.00	-	634,664,627.00	182,477,553.62	12,693,293.00	-	195,170,846.62	439,493,780.38	435,922,149.38		
4. सड़क एवं पुल	-	1,921,690.00	-	1,921,690.00	14,512,062.30	216,544.00	-	216,544.00	1,705,146.00	-		
5. नलकूप एवं जलस्त्रोत	55,332,039.00	5,727,065.00	-	61,059,104.00	14,512,062.30	1,221,182.00	-	15,733,244.30	45,325,859.70	40,819,976.70		
6. वाहित मल एवं नाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7. विद्युत स्थापना एवं उपकरण	30,381,171.00	2,230,000.00	-	32,611,171.00	8,399,373.18	1,630,559.00	-	10,029,932.18	22,581,238.82	21,981,797.82		
8. संयंत्र एवं मशीन	127,446,255.34	-	-	127,446,255.34	68,712,442.91	6,372,313.00	-	75,084,755.91	52,361,499.43	58,733,812.43		
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला	-	2,506,190.00	-	2,506,190.00	-	200,495.00	-	200,495.00	2,305,695.00	-		
10. कार्यालय उपकरण	-	12,967,794.00	-	12,967,794.00	-	972,585.00	-	972,585.00	11,995,209.00	-		
11. श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12. कंप्यूटर एवं पेरिफरल	65,513,398.00	25,892,104.00	-	91,405,502.00	35,701,506.73	6,855,413.00	-	42,556,919.73	48,848,582.27	29,811,891.27		
13. फर्निचर, फिक्सर एवं फिटिंग	58,844,907.41	11,861,515.00	-	70,706,422.41	29,517,077.77	7,070,643.00	-	36,587,720.77	34,118,701.64	29,327,829.64		
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिका	39,718,029.50	1,139,503.00	5,487.00	40,852,045.50	16,572,547.72	2,042,876.00	-	18,615,423.72	22,236,621.78	23,145,481.79		
16. कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	8,642,760.00	-	-	8,642,760.00	6,108,436.37	864,276.00	-	6,972,712.37	1,670,047.63	2,534,323.63		
कुल (क)	1,078,248,978.25	97,164,741.00	5,487.00	1,175,408,232.25	362,001,000.60	40,140,179.00	-	402,141,179.60	773,267,052.65	716,247,978.66		
17. पूंजीगत चालू कार्य	362,175,931.00	203,212,359.00	-	565,388,290.00	-	-	-	-	565,388,290.00	362,175,931.00		
सकल खंड												
मूल्यहासि												
कुल खंड												
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	वर्षाभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षात में लागत/मूल्यकन	वर्ष के आरम्भ में स्थिति	वर्ष के दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान दौराण कटौती	वर्षात में कुल	चालू वर्षात स्थिति	विगत वर्षात की स्थिति		
18. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर												
19. ई. पत्रिका			-	-			-	-	-			
20. एकस्व												
कुल (ख)			-	-			-	-	-			
कुल योग (क+ख+ग)	1,440,424,909.25	300,377,100.00	5,487.00	1,740,796,522.25	362,001,000.60	40,140,179.00	-	402,141,179.60	1,338,655,342.65	1,078,423,909.66		

Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112

Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनी हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची - 4 क योजनागत

शीर्ष परिसंपत्तियाँ	सकल खंड				मूल्यहास				कुल खंड	
	वर्षाभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षांत में लागत/मूल्यक ण	वर्ष के आरम्भ में स्थिति	वर्ष के दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षांत में कुल	चालू वर्षांत स्थिति	वर्षांत की स्थिति
1. भूमि	-	13,314,693.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकास स्थल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	6,561,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. नलकूप एवं जलस्त्रोत	-	2,844,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6. वाहित मल एवं नाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत स्थापना एवं उपकरण	-	2,230,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
8. संयंत्र एवं मशीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला	-	2,506,190.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10. कार्यालय उपकरण	-	3,165,183.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11. श्रव्य दृष्य उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कंप्यूटर एवं पेरिफरल	-	16,368,585.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13. फर्निचर, फिक्सर एवं फिटिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिका	-	1,119,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-
16. कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	-	48,110,719.00	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. पूंजित चालू कार्य	-	203,212,359.00	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. एकम्ब	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	203,212,359.00	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	251,323,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112

Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल

अनुसूची - 4 ख गैर-योजनागत

शीर्ष परिसंपत्तियाँ	वर्षाभ में लागत/मूल्यकन	सकल खंड			मूल्यहारा				कुल खंड	
		वर्ष दौरान जुड़ा	वर्ष के दौराण कटौती	वर्षांत में लागत/मूल्य कन	वर्ष के आरम्भ में स्थिति	वर्ष के दौराण जुड़ा	वर्ष के दौराण कटौती	वर्षांत में कुल	चालू वर्षांत स्थिति	विगत वर्षांत की स्थिति
1. भूमि	-	3,339,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकास स्थल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	3,712,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सड़क एवं पुल	-	1,921,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5. नलकूप एवं जलस्रोत	-	2,500,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6. वाहित मल एवं नाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत स्थापना एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. संयंत्र एवं मशीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. कार्यालय उपकरण	-	7,173,004.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11. श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कंप्यूटर एवं पेरिफरल	-	9,523,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13. फर्निचर, फिक्सर एवं फिटिंग	-	10,134,143.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिका	-	19,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-
16. कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	-	38,324,253.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17. पूंजित चालू कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. ई-पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. एकरस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	38,324,253.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Assistant Registrar(Fin.)

Rajiv Gandhi University

Rono Hills, Doimukh -791112

8

Finance Officer

Rajiv Gandhi University

Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची - घ अन्य

शीर्ष परिसंपत्तियाँ	सकल खंड				मूल्यहारास				कुल खंड		राशि (रु)
	वर्षाभ में लागत/मूल्यकन	वर्ष दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षांत में लागत/मूल्यकन	वर्ष के आरम्भ में स्थिति	वर्ष के दौरान जुड़ा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्षांत में कुल	चालू वर्षांत स्थिति	विगत वर्षांत की स्थिति	
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विकास स्टल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. भवन	-	5,991,031.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. नलकूप एवं जलस्रोत	-	381,759.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. वाहित मल एवं नाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. विद्युत स्थापना एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. सेयन एवं मशीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. कार्यालय उपकरण	-	2,629,607.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. श्रव्य दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. कंप्यूटर एवं पेरिफरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. फर्निचर, फिक्स्ड एवं फिटिंग	-	1,727,372.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ	-	10,729,769.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. पूंजित चालू कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान जुड़ा

उपहार
उद्दिष्ट निधि
प्रायोजित परियोजित
निजी निधि
कुल


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची- 7 चालू परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष	राशि(रु)
		विगत वर्ष
1. माल क) भाण्डार एवं अतिरिक्त ख) कूच उपकरण ग) प्रकाशन घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोग्य वस्तु एवं कांच के वस्तु ड) भवन सामग्री च) विद्युत सामग्री छ) लेखन सामग्री ज) जल स्ट्रोत सामग्री 2. विविध देनदार क) छ माह से अधिक अवधि के लिए ऋण ख) अन्य 3. नकद एवं बैंक बकाया क) अनुसूचित बैंकों से		
चालू खातों में	-	15,000.00
आवधिक जमा खातों में	400,744,137.00	534,942,010.00
बचत खातों से	416,975,977.92	185,568,330.92
ख) गैर- अनुसूची बैंकों से चालू खातों में आवधिक जमा खातों में बचत खातों से		
5. डाकघर बचत खातों से		
कुल	817,720,114.92	870,045,609.96


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

संलग्नक - क

1. बचत बैंक खाता	
1. यू.जी.सी. खाता से अनुदान	228,734,726.00
2. विश्वविद्यालय पावती खाता	40,429,102.50
3. छात्रवृत्ति खाता	
4. शैक्षणिक शुल्क पावती खाता	
5. विकास (योजनागत खाता)	742,007.00
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा	
7. यू.जी.सी. योजनागत छात्रवृत्ति खाता	
8. समग्र निधि खाता	8,554,789.00
9. प्रायोजित परियोजना खाता	69,399,932.46
10. प्रायोजित छात्रवृत्ति खाता	
11. अक्षय निधि एवं पर्दत खाता (ईएम.एफ)	
12. यू.जी.सी. जे.आर.एफ छात्रवृत्ति खाता	
13. एच.बी.ए.निधि खाता	3,619,982.00
14. वाहन खाता (ईएमएफ)	
15. यू.जी.सी. राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति खाता (ईएमएफ)	
16. शैक्षणिक विकास निधि खाता (ईएमएफ)	
17. जमा खाता	9,441,990.00
18. छात्र निधि खाता	
19. छात्र सहायता निधि खाता	
20. विशिष्ट योजना के लिए योजनागत अनुदान	
विदेशी गठबंधन	64,755.00
उपदान निधि खाता	486,151.00
अग्रदाय लेखा (राजस्व)	15,000.00
दूरी	35,525,935.00
रखरखाव निधि	19,961,607.96
II. चालू खाता	
III. अनुसूचित बैंको से अवधिक जमा	
ऋण जमा खाता	14,166,026.00
राजस्व निधि	62,342,973.00
राजस्व निधि (समग्र निधि पर अग्रदाय)	-
विकास खाता	-
विदेशी गठबंधन	-
उपदान निधि खाता	45,551,344.00
दूरी	20,000,000.00
रखरखाव निधि	-
समग्र निधि	107,500,000.00
परियोजना खाता	18,184,521.00
राजस्व निधि	32,999,273.00
यू.जी.सी. निधि	100,000,000.00
कुल	817,720,114.92


 Assistant Registrar(Fin.)
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh - 791112

10(A)


 Finance Officer
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर

अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम एवं जमा	चालू वर्ष	राशि (रु)
		विगत वर्ष
1. कर्मचारियों को अग्रिम (गैर-व्याज युक्त)		52,349,150.00
क) वेतन	-	
ख) त्योहार	60,750.00	
ग) एल.टी.सी	335,960.00	
घ) चिकित्सा अग्रिम	225,000.00	
ड) अन्य (विशिष्ट)	8,563,066.00	
2. कर्मचारियों को दिर्घ अधिक अग्रिम (व्याज युक्त)		
क) वाहन ऋण	520,000.00	
ख) गृह ऋण	1,760,000.00	
ग) अन्य (विशिष्ट)	2,081,600.00	
3. अग्रिम एवं अन्य नकद देय राशि अथवा प्राप्त योग्य मूल्य		
क) पूंजीगत खाता से		
ख) पूर्ती कर्ता को		
ग) अन्य (विशिष्ट)	60,788,759.00	
4. पूर्वप्रदत्त खर्च		
क) बीमा		
ख) अन्य खर्च		
5. जमा		
क) दूरभाष		
ख) बंधक किराया		
ग) विद्युत		
घ) एआई सी टी ई, यदि है		
ड) अन्य (विशिष्ट)		
6. उपार्जित आय		
क) उद्घष्ट/अक्षेय निधि से निवेश पर		
ख) अन्य निवेश पर		
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य	16,074,571.00	25,797,179.00
(आय गैर नकदीकृत आय सहित)		
7. अन्य पावतियाँ		
क) प्रायोजित परियोजना में बकाया रिण		
ख) छात्रवृत्ति एवं अध्ययता वृत्ति में बकाया ऋण		
ग) वसूलिकृत योग्य अनुदान		
घ) अन्य पावतियाँ	329,279.00	329,279.00
8. पावती योग्य दावे		
कुल	90,738,985.00	78,475,608.00

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची - 9 शैक्षणिक पावती	चालू वर्ष	राशि (रु)
		विगत वर्ष
छात्रों से शुल्क		
शैक्षणिक		
1. शिक्षा शुल्क	2,594,830.00	2,242,495.00
2. प्रवेश शुल्क	4,233,812.00	4,408,395.00
3. नामंकन शुल्क	816,920.00	
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	544,200.00	462,452.00
5. प्रयोगशाला शुल्क	618,795.00	
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	
7. पंजीकरण शुल्क	3,549,245.00	9,726,050.00
8. पाठ्यक्रम शुल्क	-	
9. अन्य शैक्षणिक शुल्क	23,558,762.00	
कुल (क)	35,916,564.00	16,839,392.00
परीक्षा		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क		
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	12,973,514.00	24,158,255.00
3. अंक पत्र, प्रमाण पत्र शुल्क	4,297,135.00	1,541,174.00
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	
5. अन्य परीक्षा शुल्क	5,027,000.00	
कुल(ख)	22,297,649.00	25,699,429.00
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	309,230.00	332,535.00
2. जर्माना/विविध शुल्क	249,560.00	
3. चिकित्सा शुल्क	-	
4. यातायात शुल्क	1,010,660.00	1,140,990.00
5. छात्रावास शुल्क	503,490.00	
कुल (ग)	2,072,940.00	1,473,525.00
प्रकाशनों का	2,000.00	
1. प्रवेश पत्र	-	
2. पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र, आदि	10,790.00	31,000.00
3. विवरण पत्रिका सहित प्रवेश पत्र	1,452,965.00	743,590.00
4. अन्य वस्तु	73,765.00	
कुल (घ)	1,539,520.00	774,590.00
अन्य शैक्षणिक पावती		
1. कार्यशाला, कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क	-	
2. पंजीकरण शुल्क (शैक्षणिक कर्मी महाविद्यालय)		
कुल (ङ)	-	774,590.00
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	61,826,673.00	44,786,936.00

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश


अनुसूची-10 अनुदान एवं रियायत (अविकल्पीक प्राप्त अनुदान)	भारत सरकार	योजनागत		कुल योजना	गैर-योजनागत यूजीसी	चालू वर्ष कुल	विगत वर्ष कुल
		यूजीसी					
		योजनागत	विशिष्ट योजना				
बकाया बी/एफ		250,512,692.00		250,512,692.00	53,082,528.96	303,595,220.96	
जुड़ा: वर्ष के दौरान पावती		330,000,000.00	17,400,000.00	347,400,000.00	356,430,000.00	703,830,000.00	
कुल	-	580,512,692.00	17,400,000.00	597,912,692.00	409,512,528.96	1,007,425,220.96	-
कटौती: यूजीसी को लौटाया					-	-	
बकाया	-	580,512,692.00	17,400,000.00	597,912,692.00	409,512,528.96	1,007,425,220.96	-
कटौती: पूंजीगत खर्च के लिए प्रयुक्त (क)		251,323,078.00		251,323,078.00	38,324,253.00	289,647,331.00	
बकाया	-	329,189,614.00	17,400,000.00	346,589,614.00	371,188,275.96	717,777,889.96	-
कटौती: राजस्व खर्च के लिए प्रयुक्त (ख)		37,789,648.00	768,667.00	38,558,315.00	397,202,552.00	435,760,867.00	
बकाया सी/एफ (सी)	-	291,399,966.00	16,631,333.00	308,031,299.00	(26,014,276.04)	308,031,299.00	-

विश्वविद्यालय ने भैर-योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से 26014276 रूपया अधिक खर्च किया है जबकि एकत्र राजस्व, एस.बी.आई ब्याज आदि के कुल 45975884/-(42600000+1327970+2047914)रूपए को वर्ष 2015-16 का अनुदान नहीं माना गया है, अतः 26014276 रूपए कुल अतिरिक्त खर्च उल्लेखित पावती अंक से प्रतिपूर्ति की गई गई है। इस प्रारूप में तुलन पत्र भैर-योजनागत लेखा (जो पावती व भुगतान लेखा 2015-16) की आरंभिक बकाया को दर्शाता है। योजना खाता के अंतर्गत आरंभिक बकाया, पावती व भुगतान खाता 2015-16 से भी दर्शाया गया है।

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची-11 निवेश से आय	उद्दष्ट/अक्षेय निधि		अन्य निवेश	
	राशि(रु)			
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. व्याज				
क. सरकारी प्रतिभूति पर	-	-		
ख. बंध पत्र/ डिबेंचर पर	-	-		
2. आवधिक जमा पर व्याज	43,117,961.00	19,015,493.00		
3. अवधिक जमा/कर्मचारियों को देय अग्रिम से अनआधाकृत उपार्जित आय	-			
4. बैंक जमा खाता पर व्याज	-			
5. अन्य (विशिष्ट)	-			
कुल	43,117,961.00			
उद्दष्ट/अक्षेय निधि में अंतरित	43,117,961.00			
बकाया	कोई नहीं	कोई नहीं		


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

		राशि (रु)
<u>अनुसूची-12 उपार्जित आय</u>	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. अनुसूची बैंक जमा खातों पर	11,975,997.00	7,579,717.00
2. ऋण पर		
क. कर्मचारी	296,554.00	359,418.00
ख. अन्य	1,355.00	198,611.00
3. ऋण डाटा एवं अन्य पावती पर	-	-
कुल	12,273,906.00	8,137,746.00



Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटनगर, अरुणाचल प्रदेश

<u>अनुसूची-13 अन्य आय</u>	चालू वर्ष	राशि(रु)
		विगत वर्ष
क. भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास कक्ष किराया	503,490.00	
2. अनुज्ञप्ति शुल्क	1,092,059.00	
3. प्रेक्षा गृह/ खेल का मैदान/संमपरिवर्तन केन्द्र आदि का भाड़ा	556,166.00	
4. वसूली गई विद्युत खर्च	1,156,267.00	
5. वसूली गई जल खर्च	94,662.00	
कुल	3,402,644.00	
ख. संस्थान का प्रकाशन विक्रय	21,030.00	
ग. कार्यक्रम आयोजन से आय		
1. वार्षिक खेल उत्सव		
कटौती- वार्षिक उत्सव/खेल उत्सव पर उपार्जित सीधी खर्च		
2. उत्सवों से कुल पावती		
कटौती: उत्सवों में की गई सीधी खर्च		
3. शैक्षणिक भ्रमण के लिए कुल पावती		
कटौती: भ्रमण में की गई सीधी खर्च		
4. अन्य (विशिष्ट एवं पृथक रूप से दिखाया गया)		
शिशु देखभाल केन्द्र शुल्क	49,650.00	
जुमोना/विविध शुल्क	577,498.00	
यातायात शुल्क	261,000.00	
कुल	909,178.00	
घ) अन्य		
1. परामर्श से आय		
2. आर टी आई शुल्क	110.00	
3. स्वामित्व से आय		
4. भर्ती आवेदन पत्र का विक्रय	36,060.00	
5. विविध पावति(निविधा पत्र, रद्दी कागज आदि का विक्रय)		
6. परिसंपत्ति का विक्रय/जमा पर लाभ		
क. स्वामित्व युक्त परिसंपत्ति		
ख. बिना मूल्य से प्राप्त परिसंपत्ति		
7. संस्थानों, कल्याणकारी संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान		
8. अन्य (विशिष्ट)	74,300,696.00	
कुल	74,336,866.00	
कुल (क+ख+ग+घ)	78,648,688.00	-


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची-15 कर्म भुगतान एवं लाभ (स्थापना खर्च)	चातू वर्ष			विगत विष		राशि (₹)
	योजना	बैर-योजना	कुल	योजना	बैर-योजना	कुल
क) वैनतन एवं मजदूरी	15,580,753.00	267,663,872.00	283,244,625.00			209,892,094.04
ख) भत्ता एवं बौनस						15,147,906.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान		18,633,043.00	18,633,043.00			17,223,335.00
घ) अन्य निधि में अंशदान						823,872.00
ड) कर्मचारी कल्याण खर्च		5,376,248.00	5,376,248.00			
च) सेवा निवृत्ति एवं संवन्त हितलाभ		3,680,721.00	3,680,721.00			
छ) एल टी. सी सुविधा		1,963,755.00	1,963,755.00			
ज) चिकित्सा सुविधा		6,342,908.00	6,342,908.00			
झ) संतान शिक्षा भत्ता		4,737,159.00	4,737,159.00			
ञ) मानदेय		1,361,848.00	1,361,848.00			
1) अन्य (विशिष्ट)	273,531,973.00	125,767,251.00	399,299,224.00			29,571,879.00
कुल	289,112,726.00	435,526,805.00	724,639,531.00			272,659,086.04

अनुसूची-15 कर्मचारी एवं सेवांत हित लाभ	पेनशन	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	राशि (₹)
31.03.2016 तक अतिरिक्त बकाया	507,828.00	103,543,784.00	69,147,866.00	173,199,478.00
जुड़ा: अन्य संगठनों से प्राप्त अंशदान का पंजीगत मूल्य	-	-	-	-
कुल (क)	507,828.00	103,543,784.00	69,147,866.00	173,199,478.00
कटौती: वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान (ख)	4,875.00	1,666,004.00	248,466.00	1,919,345.00
31.03.2016 तक उपलब्ध बकाया ग(क-ख)	502,953.00	101,877,780.00	68,899,400.00	171,280,133.00
वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2016 को आवश्यक प्रावधान (घ)	502,953.00	109,545,593.00	75,156,552.00	185,205,098.00
क) चातू वर्ष में बनाए जाने योग्य प्रावधान	-	7,667,813.00	6,257,152.00	13,924,965.00
ख. न्यू पेनशन स्किम में अंशदान	-	-	-	-
ग. सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ) जमा से जुड़े बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ड)	-	7,667,813.00	6,257,152.00	13,924,965.00

Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112

Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल

						राशि (रु)
अनुसूचि- 16 शैक्षणिक खर्च	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क) प्रयोगशाला खर्च			723,809.00			432,910.00
ख) क्षेत्र कार्य/सम्मेलन में भागीदारी						
ग) संगोष्ठी/कार्यशाला पर खर्च			1,009,616.00			994,351.00
घ) आमंत्रित संकाय को भुगतान						
ङ) परीक्षा			22,194,386.00			9,268,137.00
च) छात्र कल्याण खर्च			944,659.00			3,146,351.00
छ) प्रवेश खर्च	-		37,248.00			209,288.00
ज) दीक्षांत समारोह में खर्च			2,893,169.00			152,072.00
झ) प्रकाशन			710,300.00			
त) वृत्तिका/योग्यता छात्रवृत्ति						
थ) अभिदान खर्च						
द) अन्य (विशिष्ट)			3,734,820.00			5,146,237.00
कुल	-	-	32,248,007.00	-	-	19,349,346.00



Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अनुसूची -17 प्रशासनिक एवं साधारण खर्च	चालू वर्ष			राशि(रु)		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
क. संरचनागत						
क) विद्युत एवं पावर			5,693,042.00			5,544,019.00
ख) जल खर्च			-			1,914.00
ग) वीमा			548,824.00			565,863.00
घ) किराया, दर एवं कर (संपत्ति कर सहित)			-			-
ख. संचार						
ड) डाक एवं तार			113,686.00			126,042.00
च) दूरभाष एवं इंटरनेट खर्च			500,548.00			359,787.00
ग. अन्य						
छ) छापा एवं लेखन सामग्री			3,535,204.00			12,592,806.00
ज) यातायात एवं सुविधा खर्च			-			-
झ) संगोष्ठी एवं कार्यशाला पर खर्च			-			-
ञ) आतिथ्य			982,958.00			649,123.00
त) लेखाकार पारिश्रमिक			178,947.00			78,360.00
थ) व्यवसायिक खर्च			116,931.00			199,437.00
द) विज्ञापन एवं प्रचार			548,523.00			149,075.00
ध) पत्रिका एवं दैनिकी						
न) अन्य (विशिष्ट)			1,467,619.00			
कुल	-	-	13,686,282.00	-	-	20,266,426.00


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

						राशि(रु)
<u>अनुसूची-18 यातायात खर्च</u>	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1. वाहन (शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिपत्य)						
क) चालू खर्च			8,136,395.00			7,599,727.00
ख) मरम्मत एवं रखरखाव			-			-
ग) बीमा खर्च			-			-
2. भाड़ा/पट्टे का वाहन						
क) किराया/पट्टा खर्च			-			-
3. वाहन (टेक्सी) भाड़ा खर्च			197,673.00			313,000.00
कुल	-	-	8,334,068.00	-	-	7,912,727.00


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

**राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स दोईमख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश**

अनुसूची - 20 चित्त लागत	राशि (₹)			
	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
क) बैंक शुल्क		कुल		कुल
ख) अन्य (विशिष्ट)		93,830.00		58,310.00
		-		-
कुल	-	93,830.00	-	58,310.00

अनुसूची- 21 अन्य खर्च	चालू वर्ष			
	विगत वर्ष		चालू वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
क) अशोध्य एवं सदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		कुल		कुल
ख) भेड़े खाते में डाला गया अटल बकाया		-		-
ग) अन्य संस्थान/संगठनों को अनुदान/रियायत		-		-
घ) अन्य (विशिष्ट)		46,654,974.08		13,934,300.00
कुल	-	46,654,974.08	-	13,934,300.00

अनुसूची- 22 पूर्व कालिक खर्च	चालू वर्ष			
	विगत वर्ष		चालू वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1. स्थापना खर्च		कुल		कुल
2. शैक्षणिक खर्च		-		-
3. प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च		-		-
4. यातायात खर्च		-		-
5. मरमत एवं रखरखाव		-		-
6. अन्य खर्च		-		-
कुल	-	-	-	-

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश
31.03.2016 तक समाप्त वर्षांत के लिए पावती एवं भुगतान

पावती	चालू वर्ष राशि (रु)	विगत वर्ष राशि (रु)	भुगतान	चालू वर्ष राशि (रु)	विगत वर्ष राशि (रु)
I आरम्भिक बकाया			I खर्च		
क) नकद बकाया	-	-	क) स्थापना खर्च	311,304,930.00	238,621,455.04
ख) बैंक बकाया			ख) शैक्षणिक खर्च	32,248,007.00	18,999,222.00
i. चालू खाते में	15,000.00	15,000.00	ग) प्रशासनिक खर्च	13,686,282.00	19,498,249.00
ii. जमा खाते में	534,942,010.00	681,450,247.00	घ) यातायात खर्च	8,334,068.00	7,432,790.00
iii. बचत खाते में	185,568,330.92	188,580,362.96	ङ) मरम्मत एवं रखरखाव	32,225,669.00	30,012,717.00
			च) पूर्व कालीक खर्च	-	-
II प्राप्त अनदान			II उद्दिष्ट/अक्षय निधि के द्वारा भुगतान		
क) भारत सरकार से	356,430,000.00	309,269,000.00			
ख) राज्य सरकार से	72,125.00				
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण)	51,375.00				
III शैक्षणिक पावती	62,639,456.08	69,477,696.00	III प्रायोजित परियोजना से भुगतान	59,788,289.00	98,435,519.00
IV उद्दिष्ट एवं अक्षय निधि से पावती	347,400,000.00	102,699,159.00	IV प्रायोजित छात्रवृत्ति एवं अध्येता वृत्ति से भुगतान	8,198,696.00	16,480,081.00
V प्रायोजित परियोजना से भुगतान	53,613,484.00		V निवेश एवं जमा		
VI प्रायोजित छात्रवृत्ति एवं अध्येता वृत्ति से भुगतान	1,607,000.00		क) उद्दिष्ट निधि से		
VII निवेश से आय			ख) निधि स्वामित्व निधि से (निवेश - अन्य)		
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधि			VI अनुसूचित बैंक से आवधिक जमा		
ख) अन्य निधि			VII स्थाई परिसंपत्ति एवं चालू पूंजीगत कार्यों पर खर्च		
VIII प्राप्त व्याज			क) स्थाई परिसंपत्ती	289,335,581.00	265,885,428.00
क) बैंक जमा पर	43,117,961.00		ख) चालू पूंजीगत कार्य	11,855,676.00	
ख) ऋण एवं अग्रिम पर	297,909.00		ग) संवधिक सहित अन्य भुगतान		
ग) बचत बैंक खाते पर	11,975,997.00		VIII संवधिक सहित अन्य भुगतान	46,748,804.08	
IX नकदीकृत निवेश			IX अनुदान प्रतिदाय		
X अनुसूचित बैंकों से नकदीकृत अवधिक जमा			X जमा एवं अग्रिम		
XI अन्य आय (पूर्व कालिक आय)	47,227,438.00	83,255,027.00	XI अन्य भुगतान	71,889,698.00	106,178,422.00
XII जमा एवं अग्रिम	22,549,880.00	41,929,030.00	XII अंत शेष		
XIII लेखन समाग्री सहित विविध पावती	28,480,264.00	28,377,668.00	क) नकद	-	15,000.00
XIV कोई अन्य पावती	7,347,585.00	17,016,034.00	ख) बैंक बकाया		
			चालू खातों में	400,744,137.00	534,942,010.00
			जमा खातों में	416,975,977.92	185,568,330.92
			बचत खातों में		
	1,703,335,815.00	1,522,069,223.96		1,703,335,815.00	1,522,069,223.96


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

राजीव गांधी विश्वविद्यालय
रोनो हिल्स, दोईमुख
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

अंसदाय भविष्य निधि लेखा

31.3.2016 तक का तुलन पत्र

देनदारि	चालू वर्ष	राशि (रु) विगत वर्ष
विश्वविद्यालय अंशदान	118,343,204.00	100,630,640.00
कर्मि अंशदान	97,744,874.00	77,212,717.00
व्याज प्रतिलोम खाता	205,372,096.00	157,631,751.00
व्याज लागू (प्रतिलोम)	22,845,363.00	22,845,363.00
कुल	444,305,537.00	358,320,471.00
परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सीपीएफ अग्रिम	6,846,128.00	5,697,978.00
उपार्जित व्याज	123,277,213.00	98,614,427.00
चालू परिसंपत्ति	314,182,196.00	254,008,066.00
कुल	444,305,537.00	358,320,471.00


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

अनुसूची: 23

महत्वपूर्ण लेखा नीति

- 1 लेखा निर्माण का आधार लेखा निर्माण सामान्यतः लेखा की प्रोद्भूत पद्धति एवं निर्देश अनुसार ऐतिहासिक लागत संपरिवर्तन के तहत तैयार किया जाता है।
- 2 राजस्व अभिज्ञान
 - 2.1 छात्रों से शुल्क (ट्यूशन शुल्क के अतिरिक्त), प्रवेश पत्रों की बिक्री, स्वामित्व एवं बचत बैंक खातों को नकद आधार पर लेखागत किया जाता है। प्रत्येक सत्र के लिए प्रथक रूप से एकत्र ट्यूशन शुल्क को प्रोद्भूत के आधार पर लेखागत किया गया है।
 - 2.2 भूमि, भवन एवं अन्य संपत्ति से आय एवं निवेश ब्याज को प्रोद्भूत आधार पर लेखागत किया गया है।
 - 2.3 कर्मियों को भवन निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद के लिए देय ब्याज यूक्त अग्रिम से प्राप्त ब्याज को प्रतिवर्ष प्रोद्भूत आधार पर लेखागत किया गया है जबकि वास्तविक ब्याज की वसूली मूलधन के पूर्ण भूगतान के बाद ही शुरू होता है।
- 3 स्थाई परिसंपत्ति एवं मूल्यहास
 - 3.1 स्थाई परिसंपत्तियों को अधिग्रहण लागत में अंकित किया गया है जिसमें आवक, मालभाड़ा कर एवं अधिग्रहण, स्थापन व कार्याधिकार से जुड़े आकरिमक एवं अन्य सीधे खर्च शामिल हैं
 - 3.2 दान/उपहार की परिसंपत्ति को उपलब्धता की स्थिति में घोषित मुल्य का आँका गया है, यदि उपलब्ध नहीं हो तो परिसंपत्ति की भौतिक अवस्था के अनुसार अभी की बाजार मुल्य के आधार पर मुल्य आँका गया है उन्हें पूंजीगत निधि में जमा किया गया है और संस्थान की स्थाई परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।
 - 3.3 उपहार स्वरूप प्राप्त पुस्तकों को उन पर अंकित विक्रय मुल्य का मुल्य दिया गया है। जहाँ मुल्य अंकित न हो वहाँ मुल्य निर्धारित किया गया है।
 - 3.4 स्थाई परिसंपत्ति को कम संचित मुल्यहास लागत पर मुल्यांकित किया गया है। स्थाई परिसंपत्ति पर मुल्यहास को सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्न दरों पर उपलब्ध किया गया है:-

मूर्त परिसंपत्ति:

1 भूमि	0%
2 स्थल विकास	0%
3 भवन	2%
4 सड़क व पुल	2%
5 नलशप व जल स्रोत	2%
6 मल निकासी एवं नाला	2%
7 विद्युत स्थापना व उपकरण	5%
8 संयंत्र व मशीन	5%
9 वैज्ञानिक व प्रयोगशाला उपकरण	8%
10 कार्यालय उपकरण	7.50%
11 दृश्य श्रव्य उपकरण	7.50%
12 कंप्यूटर एवं सह उपकरण	20%
13 फर्निचर, फिक्सचर व फिटिंग	7.50%
14 वाहन	10%
15 पुस्तकालय पुस्तक व वैज्ञानिक पत्रिका	10%
अमूर्त परिसंपत्ति (परिशोधन)	
1 ई- पत्रिका	40%
2 कंप्यूटर साफ्टवेयर	40%
3 एक्स्व अधिकार व प्रतिलिप्यधिकार	9 वर्ष

2014-15 तक आर.जी.यू. में मूल्यहास को हासिल मूल्य पद्धति द्वारा गणना किया जाता

था तथा 2015-16 से आर.जी.यू. ने सरल रेखा पद्धति, को नई लेखा प्रणाली को लाने के लिए मूल्यहास गणना में लागू किया।

मूल्यहास गणना के लिए सरल रेखा पद्धति वित्त वर्ष 2015-16 से चालू हुआ।

- 3.5 वर्ष के दौरान जौड़ पर पूरे वर्ष के लिए मुल्यहास उपसब्ध था
- 3.6 जहाँ परिसंपत्ति का पूर्ण मुल्यहास हो, तो उसे तुलनपत्र में एक रूप की अवशेष मुल्य पर चलाया जाता है तथा उसके अधिक मुल्य पर आगे रखा जाता है। इसलिए मुल्यहास की गणना प्रतिवर्ष प्रथक रूप परिसंपत्ति शीर्ष पर चालू मुल्यहास की दर पर दिखाया गया है।
- 3.7 अनिर्दिष्ट निधि एवं प्रायोजित परियोजनाओं से बनी परिसंपत्ति जिनका उत्तराधिकारी संस्थान हो को पुंजीगत निधि से तैयार किया गया है तथा संस्थान की स्थाई परिसंपत्ति में जोड़ा गया है। संबंधित परिसंपत्ति पर निर्धारित दरों से मुल्यहास लगया गया है। प्रायोजित परियोजना निधि से बनी परिसंपत्ति जिनका उत्तराधिकारी प्रायोजक हो परन्तु संस्थान द्वारा रोका गया एवं प्रयोग में लाया जाने वाला हो, उन्हें लेखा में प्रथक टिप्पणी द्वारा दिखाया गया है।
- 3.8 जिन परिसंपत्तियों का एकक मुल्य 2000 रूपए (पुस्तकाला पुस्तकों के अतिरिक्त) या उससे कम है उन्हें अल्प मुल्य की परिसंपत्ति माना गया है। ऐसी परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के समय 100% मुल्यहास दिया गया है। जबकि ऐसी परिसंपत्तियों के धारक इनपर भौतिक लेखा एवं नियंत्रण जारी रखते हैं।
- 4 अमूर्त परिसंपत्तिया: पेटेंट व स्वत्वाधिकार, ई-जर्नल व कंप्यूटर साफ्टवेयर को परिसंपत्ति के अंतर्गत बाटें गया है।
- 4.1 पेटेंट समय-समय पर ऐसी परिसंपत्तियों पर किए गए खर्च को अस्थायी रूप से पुंजीगत किया गया है तथा तुलन पत्र में इसे अमूर्त परिसंपत्ति के अंश के रूप में बताया गया है। यदि पेटेंट का आवेदन रद्द किया जाता है तो संबंधित पेटेंट पर उपार्जित संचित खर्च को आवेदन रद्द होने के वर्ष में आय व व्ययखाते द्वारा बड़े खाते में रखा गया है। संतुलित उपधार पर अनुमोदित पेटेंट पर खर्च को 9 वर्षों के दौरान बड़े खाते डाला जाता है। ई-जर्नल को पुस्तकालय पुस्तक से प्रथक इस दृष्टि से रखा गया है कि अल्प लाभ को ओन-लाइन सुविधा से प्राप्त किया जा सकता है। ई-जर्नल मूर्त रूप में नहीं है परन्तु अस्थायी रूप से पुंजीगत है तथा इससे शैक्षणिक एवं शोध कर्मियों को प्राप्त होने वाले अंनल ज्ञान को ध्यान में रखते हुए इसमें पुस्तकालय पुस्तक के लिए उपलब्ध 10% के मुल्यहास से अधिक 40% उपलब्ध है।
- 4.3 साफ्टवेयर के अधिग्रहण पर खर्च को कंप्यूटर एवं पेरिफरल से प्रथक रखा गया है अमूर्त परिसंपत्ति से अलग होने के कारण इनमें अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। साफ्टवेयर पर मुल्यहास की 40% की उच्च है बल्कि कंप्यूटर एवं पेरिफरल में यह 20% उपलब्ध है।
- 5 भंडार: रसायन, कोंच की वस्तुओं, प्राकाशनों एवं अन्य भंडार की खरीद पर खर्च को राजस्व खर्च कहा गया है, किन्तु विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च तक भंडारण मुल्य की वस्तु सूची तैयार संबंधित राजस्व खर्च में कटौती करके की गई है। उन्हें लागत पर मुल्य दिया गया है।
- 6 सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पैनसन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण को वास्तविक मुल्य के आधार पर उपलब्ध करया गया है। संस्थान के पुराने कर्मियों से प्राप्त पैनसन व उपदान का पुंजीगत मुल्य संबंधि खातों में उपलब्ध करया गया है। प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मियों से प्राप्त पैनसन अभिदान को संबंधित व्यक्ति के पैनसन खाते में नकदीकृत किया गया है। पैनसन, उपदान व छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित खाते में उपलब्ध करया गया है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- जैसा जमा से जुड़ा बीमा, नई पैनसन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्ति कर्म को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सेवानिवृत्ति के समय वास स्थल की यात्रा को संचित आधार पर लेखागत किया गया है। (वर्षांत में वास्तविक भुगतान एवं बकाया बिल)


Assistant Registrar (Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

- 7 निवेश
क. दिर्य आवधिक निवेश को उनके मुल्य व फैस वेल्थु जो भी न्युनतम हो में दिया जाएगा। तुलनपत्र की तिथि में इसमें मुल्य में कोई स्थाई हास को उपलब्ध कराना गया है।
ख. अल्प आवधिक निवेश को उनके बाजार मुल्य या उनके मुल्य जो भी कम हो पर चलाया गया है।
- 8 उद्दिष्ट/अर्थ निधि
निम्नलिखित दिर्य आवधिक निधियों को विशिष्ट कार्य के लिए निर्दिष्ट किया गया है। प्रत्येक निधि का प्रथम बैंक खाता है। जिनका बकाया अधिक है उनका बैंको में सरकारी सुरक्षा, डिबेनचर व बान्डर एवं आवधिक जमा भी है। निवेश/अब्रीम (घर बनाना की सुविधा व कंप्यूटर) जो उपार्जित आधार पर है तथा बैंक बचत खाता का ब्याज संबंधित निधि में नकदीकृत किया जाता है। खर्च एवं अब्रीम (घर बनाने की सुविधा एवं कंप्यूटर) निधि से काटा जाता है। उद्दिष्ट निधि से तैयार वस्तु जिनपर संस्थान का स्वामित्व है को संस्थान की परिसंपत्ति समान मुल्य की पूंजीगत निधि रखकर जोड़ा गया है। संबंधित निधि में बकाया को आने जारी रखा गया है तथा परिसंपत्ति पक्ष में बैंक बकाया निवेश व उपार्जित ब्याज से परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है।
- 8.1 समग्र निधि: समग्र निधि स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/संबद्धना शुल्क, संस्थानों से परामर्श शुल्क का अंश एवं शोध परियोजनाओं से प्राप्त अंशदान को समग्र निधि में जोड़ समझा जाता है। निधियों के निवेश से आय को निधि में जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान एवं संस्थान की कार्यकारी परिसद द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार समग्र निधि का प्रयोग राजस्व एवं पूंजीगत दोनों खर्चों में किया गया है। समग्र निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियों को संस्थान की परिसंपत्ति में शामिल करके उसके समान मुल्य पूंजीगत निधि में जमा कर दिया गया है। समग्र निधि में बकाया जिसे अब्रेनीत किया गया है, वह प्रथम बैंकों में बकाया, आर.बी.आई में बॉन्ड के रूप में निवेश, व बैंकों में निर्धारित जमा एवं निवेश से उपार्जित ब्याज के रूप में दर्ज है।
- 8.2 ए.डी.निधि
ए.डी.निधि की स्थापना 1 फरवरी 2006 में हुई। निधि का उपयोग नवीन कार्यक्रमों, शोध एवं ऐसे अन्य विकास कार्यों में होता जिसके लिए समय-समय पर कार्यकारी परिषद कड़ा गया है।
- 8.3 निर्माण अब्रीम निधि
घर बनाने के लिए अधिकारी एवं कर्मों को ब्याज युक्त अब्रीम देने के उद्देश्य से एक परिक्रामी निधि।
- 8.4 जे.आर.एफ/एस.आर.एफ निधि
यह निधि यू.जी.सी/सरकार द्वारा कनिष्ठ/वरिष्ठ शोधार्थियों को छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से है।
- 8.5 सुविधा निधि (कंप्यूटर अब्रीम सहित)
मोटर कार खरीदने के लिए अधिकारियों एवं कर्मियों को ब्याज युक्त अब्रीम देने के उद्देश्य से एक परिक्रामी निधि।


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh - 791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

8.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति निधि

यू.जी.सी द्वारा विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रवृत्ति देने के लिए निधि।

8.7 अक्षय निधि

अक्षय निधि एक निधि है जो विभिन्न एवल दाता न्यास एवं अन्य संगठनों द्वारा कुर्सी एवं मंडल व पुरस्कार जैसा दाता चाहता है, वैसे स्थापना के लिए है। सभी अक्षय एक बचत खाते में स्वनिवेश की जाती है, क्योंकि इनके तहत गैरनिवेशित बकाया न के समान है। सभी अक्षय निधियों के निवेश से आय को निधि में जोड़ा जाता है। ब्याज को बचत बैंक खाते के सभी अक्षय निधियों में वर्ष के लिए दरों के अनुरूप बाटा जाता है। संबंधित अक्षय निधि से अर्जित आय से मंडल व पुरस्कार का खर्च संपन्न जाता है तथा बकाया अक्षेपित किया जाता है। कुर्सी के मामले में समग्र निधि का अक्षय निधि प्रयुक्त होता है। बकाया को आ.बी.आई बॉन्ड निवेश द्वारा सर्जिया गया है तथा स्थाई जमा एवं बैंक बचत खाते में बकाया सभी अक्षय निधियों के लिए समान होगा तथा निवेश से उपार्जित होगा।

9 सरकारी एवं यू.जी.सी अनुदान

9.1 सरकारी एवं यू.जी.सी अनुदान उपलब्धि आधार पर लेखागत है। जबकि अनुदान

को देने की मंजूरी 31 मार्च से पूर्व में है तथा वह अनुदान अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होता है। अनुदान ऐसे में प्रोद्गवान आधार पर लेखागत है तथा समान राशि गारंटीकर्ता से प्राप्ति योग्य दिखाया गया है।

9.2 खर्च के लिए प्रयुक्त पूंजी, सरकारी अनुदान एवं यू.जी.सी से प्राप्त अनुदान को प्रोद्गवान आधार पर पूंजीगत निधि में अंतरित किया जाता है।

9.3 प्रयुक्ति की सीमा तक राजस्व खर्च को पूर्ण करने के लिए सरकारी एवं यू.जी.सी अनुदान प्रयुक्त होता है क्योंकि आय वर्ष के दौरान वास्तव्यित होता है।

9.4 प्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिम सहित) को तुलनपत्र में अक्षेपित किया जाता है तथा देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है।

10 अक्षय निधि का निवेश एवं ऐसे निवेश पर अर्जित ब्याज रूपी आय

10.1 खर्च के लिए तत्काल गैरजरूरी निधि की उपलब्ध राशि को अनुमोदित

प्रतिभूति जमा एवं बॉन्ड में निवेश अथवा बैंकों में निश्चित अवधि के लिए जमा में रखकर बकाया को बैंक बचत खाता में रखा जाता है।

10.2 ऐसे निवेश पर प्राप्त ब्याज, उपार्जित ब्याज व बकाया एवं अनादैय उपार्जित ब्याज को संबंधित निधि में जोड़ा जाता है तथा संस्थान की आय नहीं समझी जाती है।

11 प्रयोजित परियोजनाएं

11.1 चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रायोजकों से प्राप्त राशि को संबंधित परियोजना से चालू देनदारियाँ व प्रावधान- चालू देनदारी - अन्य देनदारियाँ - पावती" के शीर्षक से जमा किया जाता है। जब भी ऐसी परियोजनाओं से खर्च किया जाता है/अग्रिम दिया जाता है अथवा अतिरिक्त आवंटित भार संबंधित परियोजना के नाम हो तो वह देनदारी खाते के नामे होगा।

11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जुनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अक्षय निधि के साथ-साथ अन्य संस्थानों भी छात्रवृत्ति व अध्येतावृत्ति को प्रयोजित करता है। इन्हें प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही लेखागत किया जाता है केवल छात्रवृत्ति व अध्येतावृत्ति पूर्ण करने पर वास्तविक खर्च किया जाता है जिसमें छात्रों व अध्येताओं द्वारा आकस्मिक खर्च के लिए भत्ता शामिल है।

11.3 संस्थान स्वयं भी छात्रवृत्ति व अध्येतावृत्ति देता है जो शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखागत किया जाता है।


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

12 आयकर

आयकर नियम की धारा 10(23सी) के तहत संस्थान की आयकर से छूट प्राप्त है। अतः लेखा में आयकर का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुसूची 24

आकस्मिक देनदारियाँ एवं लेखा पर टिप्पणी (निदर्शी)

1 आकस्मिक देनदारियाँ

- 1.1 31 मार्च तक संस्थान के विरुद्ध पूर्व/वर्तमान कर्मियों, सभिधारी व ठेकेदारों द्वारा अदालत में दायर मामले तथा ठेकेदारों के साथ विवाचन मामले जिका निर्णय अभी बाकी है। कर्मियों द्वारा स्थापना संबंधित जैसे पदोन्नति, वेतनवृद्धि वेतन मान, समापन आदि मामले दायर किए गए हैं। दावों की मात्रा निर्धारित नहीं है। मामलों में दावे तथा ठेकेदारों द्वारा विवाचन मामलों की राशि.....लाख रुपया है। (विगत वर्ष कालाख रुपया)
- 1.2 31 मार्च तक के बैंक द्वारा संस्थान के एवज में स्थापित ऋण एवं बकाया..... रुपया है (विगत वर्ष कारुपया)
- 1.3 बिट्टी कर में विवदित मांगरुपया (विगत वर्ष कारुपया)
नगरपालिका कररुपया (विगत वर्ष कारुपया)
- 2 पूंजीगत प्रतिबद्धता
31 मार्च तक ठेके जो पूंजीगत रूप से वास्तवायित होने शेष हैं तथा अग्रिम के अभाव में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे का मुल्यरुपया है। (विगत वर्ष कारुपया)
- 3 स्थाई परिसंपत्तियाँ
3.1 अनुसूची में वर्ष के दौरान स्थाई परिसंपत्ति में जुड़ाजिनमें योजना निधि से खरीदी गई स्थाई परिसंपत्ति (.....रुपए का, गैर योजना निधि सेरुपया, ए.डी.निधि सेरुपया) प्रायोजित परियोजनाओं से (.....रुपया) एवं पुस्तकालय पुस्तक एवं अन्य परिसंपत्तियों का मुल्यरुपया जो संस्थान को उपहार दिया गया है। परिसंपत्तियाँ पूंजीगत निधि में ऋण द्वारा तैयार हैं।
3.2 पूर्व के वर्षों एवं 31 मार्चतक में तुलनपत्र में योजना निधि से बने स्थाई परिसंपत्ति एवं योजना निधि से बनी स्थाई परिसंपत्ति प्रथक रूप से नहीं दिखाया गया है। वर्ष के दौरान योजना, गैर - योजना एवं अन्य निधि से जुड़ा.....तथा स्थाई परिसंपत्ति की मुख्य अनुसूची में उप अनुसूची ए, सी, व डी द्वारा जोड़ा पर मुल्यहास को क्रमशः प्रथक रूप से दिखाया गया है। (अनुसूची 4)


Assistant Registrar(Fin.)
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh -791112


Finance Officer
Rajiv Gandhi University
Rono Hills, Doimukh

- 3.3 अनुसूची 4 में अंकित स्थाई परिसंपत्तियों में वे परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं जो संस्थान द्वारा रॉकी हुई एवं चातू प्रायोजित परियोजना की निधि से खरीदी गई हो क्योंकि परियोजना बंदपत्र शर्त में शामिल है कि ऐसी परियोजना निधि से खरीदी गई सभी स्थाई परिसंपत्ति प्रायोजक की संपत्ति रहेगी।

ऐसी संपत्ति का विवरण-

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
वस्तु सूची	1.4.-तक	वर्ष में जुड़ा	कुल रूपया	आरंभिक	वर्ष के दौरान ज्ञान मुल्यहास	कुल ज्ञात मुल्यहास	31.3-तक
	वास्तविक			बकाया			कुल खंड मुल्य
	लागत			में ज्ञात			(रूपए)
				मुल्यहास			
प्रयोगशाला							
उपकरण							
कंप्यूटर							
फिक्सचर							
व फिटिंग							
कुल							


 Assistant Registrar(Fin.)
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh - 791112


 Finance Officer
 Rajiv Gandhi University
 Rono Hills, Doimukh

- 4 एकस्व: एकस्व के अंतर्गत खर्च के लिए लेखा विधि पहली बार.....में आरंभ हुई। एकस्व पर की गई खर्च की मंजूरी वर्षों दौरान.....थी तथा 31.3.....तक बकाया एकस्व के आवेदन पर खर्च को लेखा में पूंजीगत निधि में ऋण द्वारा तैयार किया गया है।में किया गया खर्च, वर्ष.....के लिए प्रत्यक्ष रूप में है।
- 5 जमा देनदारियाँ- गैर दावा युक्त जमा अंतर्गतरूपया बयाना जमा व सुरक्षा जमा के रूप में बकाया राशि है जो वित्त वर्षसे पूर्व राजस्व खाता में अंतरित किया गया तथा वर्षके लिए विविध आय के रूप में लेखागत किया गया है।
- 6 विदेशी मुद्रा पर खर्च
1. यात्रा
 2. रसायन आदि के आयात के लिए विदेशी ड्राफ्ट।
 3. अन्य
- 7 चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्नीम व जमा
प्रबंधन के विचारानुसार, चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्नीम एवं जमा का मुल्य सामान्य रूप से उगाही वसूली अनुसार होना चाहिए जो तुलनपत्र में दर्शाए गए सकल राशि के समान होना चाहिए।
- 8 बैंक बचत खाता एवं बैंकों में स्थाई जमा खातों में बकाया का पूर्ण विवरण चालू परिसंपत्ति की अनुसूची में अनुलग्नक 'ए' द्वारा जोड़ा गया है।
- 9 आवश्यकता अनुसार विगत वर्षों के अंकों को पुनः संकालित किया गया है।
- 10 अंतिम लेखा में अंकों को रूपए के समकक्ष पूर्णकृत किया गया है।
- 11 31 मार्चतक के तुलनपत्र में अनुसूची 1 से 24 अनुलग्नक अभिन्न अंश के रूप में है। उसी तिथि में वर्ष के लिए आय व व्यय का लेखा समाप्त होता है।
- 12 जैसा कि भविष्य निधि लेखा एवं नयी पेन्सन योजना लेखा को संस्थान नहीं बल्कि निधि के सदस्यों द्वारा संभाला जाता है।
इसलिए उन्हें संस्थान के लेखा सेसे अलग किया गया है। पावती व भुगतान लेखा एवं आय व व्यय लेखा (संचित आधार पर) तथा भविष्य निधि लेखा व नयी पेन्सन योजना निधि तुलनपत्र वर्ष.....से संस्थान के लेखा में जुड़ा है।
नयी पेन्सन योजना निधि का एक बड़ा भाग (.....कोरड़ रूपया),कर्मों के एवज, जिन्हे पी.आर.ए संख्या प्राप्त हुआ है को....., नेशनल सिविलिटी डिपोजिट लिमिटेड (एम.एस.डी.एल)- सेनट्रल रिकॉर्ड किपिंग एजेन्सी (सी.आर.ए) को अंतरित किया गया है। संस्थान में नयी पेन्सन योजना में.....सदस्यों के एवज में बकाया को.....में अंतरित किया जाएगा यदि एजेन्सी द्वारा पी.आर.ए आवंतीत कर दिया जाए।